

## कर्मशास्त्र का वैज्ञानिक विवेचन

प्रो. (डॉ.) सोहन राज तातेड़,

पूर्व कुलपति सिंघानिया विश्वविद्यालय, राजस्थान

भारतीय दर्शन में कर्मशास्त्र का बड़ा वैज्ञानिक विवेचन किया गया है। किसी दर्शन में अविद्या, किसी में अज्ञान आदि विभिन्न नामों से कर्म का विवेचन किया गया है। कर्म और आत्मा का सम्बन्ध अनादि है। जैन दर्शन के अनुसार आत्मा अनन्त ज्ञान दर्शन और चारित्र युक्त है। आत्मा पर कर्म का आवरण पड़ा रहता है। आत्मा और कर्म को जब अलग—अलग किया जाता है, तब आत्मा अपने मूल स्वरूप में स्थित हो जाता है। पुद्गल चतुःस्पर्शी होता है। कार्मण शरीर आत्मा के अनन्त गुण से जुड़ा है। जब कार्मण शरीर से आत्मा पृथक होता है तब आत्मा ज्ञानदर्शन चारित्र युक्त हो जाता है। तब आत्मा क्रिया नहीं करता। कर्म के सिद्धांतों का अध्ययन इस अन्तर को बिल्कुल स्पष्ट कर देता है। जिस प्रकार आनुवंशिकता जीवन से सम्बन्धित है, उसी प्रकार कर्म जीव से सम्बन्धित है, जिसमें पिछले कई जन्मों के कर्म और प्रतिक्रियाएं कर्म शरीर के रूप में संग्रहीत रहते हैं। इस कारण अलग—अलग व्यक्तियों की योग्यता और उसकी असाधारण प्रतिभा केवल वर्तमान जीवन पर ही आधारित नहीं होती, इसका मूल स्रोत इससे भी परे जीव से बधे हुए संग्रहीत कर्मों अर्थात् कार्मण शरीर में खोजा जा सकता है। जीव विज्ञान यह विश्वास करता है कि शरीर का महत्वपूर्ण घटक जीन है। यह एक विशिष्ट गुणसूत्र है और अत्यन्त सूक्ष्म है। इसकी सूक्ष्मता मात्र अनुमान से होती है। प्रश्न है हमारी चेतना कहां रहती है? ये क्रोमोजोम्स में मौजूद रहती है या जीन्स में? इसी के कारण मनुष्य—मनुष्य के बीच में इतना अंतर पाया जाता है। व्यक्तियों का स्वयं का प्रयास एक जैसा नहीं होता। प्रत्येक व्यक्ति की चेतना भी एक जैसी नहीं होती। कर्म के सिद्धांत के अनुसार इस असमानता का कारण कर्म है। यदि आज के जीववैज्ञानिक से ये प्रश्न पूछा जाये तो वह यह उत्तर देगा कि इस असमानता का कारण जीन्स है। जीन्स और क्रोमोजोम्स मानव के व्यक्तित्व का निर्धारण करते हैं। उसका स्वभाव और व्यवहार वैसा ही हो जाता है जैसे उसके जीन्स होते हैं। जीन्स ही समस्त असमानता के लिए जिम्मेदार हैं। जीवविज्ञान के अनुसार प्रत्येक जीन्स में साठ लाख आदेश होते हैं। कर्म के सिद्धांत के अनुसार कर्म के प्रत्येक कण

पर अनन्त निर्देश लिखे हुए होते हैं। विज्ञान केवल जीन्स तक पहुंचा है। जीन्स भौतिक शरीर का घटक है, परन्तु कर्म सूक्ष्म शरीर का घटक है। भौतिक शरीर के भीतर एक विद्युत शरीर होता है, जो सूक्ष्म होता है और एक कर्म शरीर होता है जो उससे भी अधिक सूक्ष्म होता है। इसके प्रत्येक भाग में अनन्त शब्द अंकित होते हैं। हमारे स्वयं के प्रयासों, अच्छाई, बुरे कार्यों, सीमाओं और विशिष्टताओं के सारे रिकॉर्ड कर्म शरीर में उत्कीर्ण रहते हैं। मनुष्य कर्म शरीर से प्राप्त कंपनों के अनुसार ही व्यवहार करता है। कर्म का सिद्धांत अत्यन्त सूक्ष्म है। आनुवंशिकता विज्ञान ने कर्म के इस सिद्धांत को समझने में हमारी बहुत सहायता की है। जीन्स आनुवंशिक विशिष्ट लक्षणों के संवाहक हैं। प्रत्येक विशिष्ट लक्षण के लिए एक विशेष प्रकार का जीन्स होता है। आनुवंशिकता के ये नियम कर्मवाद के संवादी नियम हैं। भौतिक शरीर से सूक्ष्म शरीर तक की यात्रा अपने आप में अत्यन्त महत्वपूर्ण है। यह शरीर भौतिक है और सूक्ष्म जैविक कोशिकाओं से बना हुआ है। इस शरीर में लगभग साठ खरब कोशिकाएं साथ में रहती हैं। एक सूई की नोक पर अनन्त निगोद जीवों को रखा जा सकता है। निगोद वनस्पति प्रजातियों में से एक है। यह एक सूक्ष्म और गुप्त बात है, परन्तु वर्तमान विज्ञान भी बहुत से सूक्ष्म विचारों को तथ्य के रूप में स्वीकार करता है। हमारे शरीर में खरबों कोशिकाएं होती हैं और उनमें क्रोमोजोम्स होते हैं। प्रत्येक क्रोमोजोम एक हजार—दो हजार जीन्स से बना हुआ होता है। हमारे शरीर की एक कोशिका में छियालिस क्रोमोजोम होते हैं जो जीन्स से बने हुए होते हैं। जीन्स अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाये तो आनुवंशिकता, जीन्स और समस्त रासायनिक परिवर्तन तीनों कर्म के सिद्धांत हैं। जीन हमारे भौतिक शरीर का घटक है और कर्म हमारे सूक्ष्म शरीर का। दोनों शरीर से संबंधित है। जीन्स न केवल माता—पिता के विशिष्ट गुणों का संवहन करते हैं बल्कि वे हमारे बंधे हुए कर्मों का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। परामनोविज्ञान जीन्स के पीछे क्या है इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करता है। परामनोवैज्ञानिक यह दावा करते हैं कि हमारे एक अचेतन और अवचेतन मन होता है। अचेतन मन कर्म शरीर है और अवचेतन मस्तिष्क तैजस शरीर होता है। व्यक्तियों के बीच मानसिक स्तर पर संदेशों का आदान—प्रदान, अतीन्द्रिय ज्ञान, भविष्य में होने वाली घटनाओं का ज्ञान और पदार्थ के ऊपर मन के बारे में अतीन्द्रिय भाव बोध में बात करते हैं। अवधिज्ञान,

मनःपर्यायज्ञान और केवलज्ञान ये तीन ज्ञान हमारी इन्द्रियों और मन पर निर्भर नहीं हैं। प्रत्येक घटना के पीछे कर्म शरीर और हमारी आत्मा पर उसका प्रभाव होता है। इसी प्रकार कर्मशरीर जीन्स के पीछे भी होता है। जीन्स का उल्लेख वासना अथवा संस्कार के रूप में किया गया है। जैसे कारण शरीर वासनाओं को नियंत्रित करता है, वैसे ही डी.एन.ए. के बारे में समझा जाता है कि वह जीन्स को नियंत्रित करता है। वासनाएं इस बात को स्पष्ट करती हैं कि मन की गहनतम वृत्तियां किस प्रकार समय में से गुजरती हैं, भौतिक शरीर की मृत्यु के बाद भी बनी रहती हैं और नये जीवन का निर्माण करती हैं। कर्मों का आत्मा के साथ बंधना, मुक्त होना और कर्मफल दान की प्रक्रिया सभी का विवेचन वैज्ञानिक रूप से कर्मशास्त्र में किया जाता है।